नरनाथ

1947 I
ASIA ARCHIVES

१ नाग जाग या स्नान कलश या विधि
१ पूर्व - नक्का हुल्मा ४ सनन्द.
१ दक्षिण. ड्वाहु हुल्मा ३ नन्द
१ पश्चिम. नापु हुल्मा ४ भैरवपाल
१ उत्तर. ह्रह्नेउनि हुल्मा ५ महापद्म

१ अनन्तया विं न थाय.
१ अनन्त. नक्कु वर्णु हुल्मा ५
१ वासुकि. म्हुन हुल्मा ३
१ तक्षक - नक्क हुल्मा ४
१ कर्कोटक - नील हुल्मा ३
१ पद्म नक्क हुल्मा ४
१ महापद्म - म्हुन हुल्मा ४
१ भैरवपाल - वाहु हुल्मा ४
१ कुलिक - हाकु हुल्मा ५
१ वरुण मयूर वर्णु - द्वी
स्याम वर्णु: हुल्मा

[illegible]

१८८५ कव कुन पंचवर्तुनि. सूर्य पद्म वद्व छि: पंचवर्तुन गद्व छि: अ
सूपद्म नतु पश्चान्ह स्नान न्हादि सूर्य कुलनाग गद्व छि नुववर्तु
न वद्व छि: द्वोन वतु: ॥ सर्व मध्य वरुण । थ्व नागया अर्घ ॥

नोगकू गुसथन थव मालसना ॥
१लूपले. २ हिं
२ओहायल २
१नवनत्त मध्ययान हक १
१पंचनते २
१पाधान. सतेकेरु हिंमा
१मालिक्क २
१नागकूगुनवर्धंगु द थूयान.
१नागोथवी २
१नागनूपान २
१नायूव गुनाप मध्ययान १
१विमा २
१नीथलिंख २
१सूखवीहि २
१क्का वीहि २
क्कोस खलथमाल क्क
१खलोल पनेसपूवा
कि पूवन २ पूगु माल २
साइरे लूदनं माल दथूसवकूल यानं

गुलमापूगु १ खलानपनेसघू
नाजिगा कि पूवन १ साइरे लूदना
कनका दियाग खानं कायख
लपया माल ८
१विकीलिथ दु गुथाहिं माल

१दवी कन. सायूवखी
१सायूव हाम्ल
१साइर
१वेहलत
१उगुहायाउल
१नीक्का
१थनं सकलहिनं हिंयासन
पिथनं माल.

१उपाधिकलमस. गलासखि
१०कागु कान दियाउनं नालस
सायूवकापलन हिनं पगुकोनं
पिनं ॥ पदहल पोहल. इथनेक
व. लैखइनसानाथलिंखनं क्का
वीहि. पूसासह नं ॥

१मिवभक्सि खनक्कलु. पंवपलु
व. लूपल ओहापले. पंवनत्त
घलल पक्किहले पूसासह. ना
पूवदेक्क सइ. नवाधि नार वलु
नादि माल क्कानं ॥ थनं मिवभक्ति सनं

१नक्क सहल. खावी
खिबन. खानं माल. खीं आउन
१जाय. सकलहिनं माल.

१वकूल फल नं मान

॥ सं व ८ १९०४३ माघ वद्वि याब ब्रमिसाबाल
धक्क ढ्रू यादिनमद्

ल्परल्लमानकृगयाध्मलि॥
ज्व४ रमलयां॥
मैं ८ स्नैं रवलपम

८६

[illegible]	
1947	I

ASHA ARCHIVES

पूर्वद्वार

कुहि उपाधिकलश. माकथन

सूर्याः निद्रा. भनि श्रामायूपथ. पश्चिद्वा

मालसा ॐ श्री सान्ति कृमवाय

दिकलश

शिवक. गक्तिक
लश . लश

श्री लक्ष्मी

सर्वमालड मनुल

मूलकि

श्री

शं

भूलि. कौमा. स्तु

गणेश . गणेश . बलि

पक पक्नी

सूर्यादि ०००००० बादान . कदान

०००००० नागस्थानमयलि

सूदित्यानवग्रहनक्षत्र . कुशायु . कुशाम

नाग मनुल

मृत्युंजय अष्टक्षामा

बिक्नायू . स्यामप

कय हिकिल

पञ्चवानुलथ्यावि

दिनक्षावर

पसे लेविक्र

कनायूविचा अष्टम्वेचा

करकि सिशुर्म

वैव मध्यया यज्ञवाय

वलिपूजन. वलियावान. पूर्वाकिसहइस्तुर्दन. सकहिने

कुमशिसथ पाताम

वायउर्थे

द्वास्था मत

पुनील

किनवकुनप्रव
दिशावव थया
दवनेंकवयाने

कुम्भ

द्वास्था खमण

हवोकेस

बा प

नवबलिमालसाथन

लूसि उगमल

बली माले

ॐ द्वादिवाबा.

प्रथपाव

जिबलि ञिपूजा

०००

सहूरा . ब्राह्मण . यजमान

थजिनों फलयहूयावा यक थयाया.

पाश्चिमद्वार

दुय पाताथें

नागपञ्चमाप्रेमीडाथेले थ्रि

कर्कनाग
स्वस्तिकस
कलौक्षन
मथवाक्
निक

वैश्यजाति
स्वा. स्वा
हनाग
नथमा
वर्जु



नवसीपदायन
वायहत्रा/मरव

नागमलुलीवायग्रनसाथथे
सामूमालेहत्रा॥